



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 996) पटना, सोमवार, 26 अगस्त 2019

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

अधिसूचना

8 अगस्त 2019

सं० 8—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 39 यथा संशोधित) की धारा- 22-बी के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना द्वारा, श्री अभय कान्त झा, सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दिनांक 31.08.2019 को 65 वर्ष पूरा होने के उपरान्त होने वाले रिक्त पद पर श्री भोला नाथ तिवारी, सेवा निवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मनोनयन के पश्चात् इन्हें स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ), भागलपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. स्थायी लोक अदालत, भागलपुर के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार भागलपुर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष के आदेश से,
सुनील दत्त मिश्रा,
सदस्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 996-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>